

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19102023-249564  
SG-DL-E-19102023-249564असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 261
No. 317]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945	[N. C. T. D. No. 261

### भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIसामान्य प्रशासन विभाग  
(समन्वय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. फा. 53/627/सा.प्र.वि./समन्व./2023/2212-2258.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत सभी कार्यालयों में निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिनों को वर्ष 2024 (शक सम्वत् 1945-46) में अवकाश के रूप में मनाए जाने के लिये घोषित करते हैं :-

क्र. सं.	अवकाश	तारीख	शक तिथि	सप्ताह का दिन
शक संवत् 1945				
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी	माघ 06	शुक्रवार
शक संवत् 1946				
2.	होली	25 मार्च	चैत्र 05	सोमवार
3.	गुड फ्राइडे	29 मार्च	चैत्र 09	शुक्रवार
4	ईद-उल-फितर	11 अप्रैल	चैत्र 22	गुरुवार
5	राम नवमी	17 अप्रैल	चैत्र 28	बुधवार

6	महावीर जयन्ती	21 अप्रैल	वैशाख 01	रविवार
7.	बुद्ध पूर्णिमा	23 मई	ज्येष्ठ 02	गुरुवार
8.	ईद-उल जुहा (बकरीद)	17 जून	ज्येष्ठ 27	सोमवार
9.	मुहर्रम	17 जुलाई	आषाढ़ 26	बुधवार
10.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	श्रावण 24	गुरुवार
11	जन्माष्टमी (वैष्णव)	26 अगस्त	भाद्र 04	सोमवार
12	मिलाद-उन-नबी अथवा ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस)	16 सितम्बर	भाद्र 25	सोमवार
13.	महात्मा गांधी जन्मदिवस	02 अक्टूबर	अश्विन 10	बुधवार
14	दशहरा	12 अक्टूबर	अश्विन 20	शनिवार
15.	महर्षि बाल्मीकि जन्मदिवस	17 अक्टूबर	अश्विन 25	गुरुवार
16.	दिवाली (दीपावली)	31 अक्टूबर	कार्तिक 09	गुरुवार
17	गुरु नानक जन्मदिवस	15 नवम्बर	कार्तिक 24	शुक्रवार
18	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर	पौष 04	बुधवार

उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त एक कर्मचारी वर्ष 2024 (शक 1945-46) के निम्नलिखित प्रतिबंधित अवकाशों में से कोई दो अवकाश पाने का हकदार है:-

क्र. सं.	अवकाश	तारीख	शक तिथि	सप्ताह का दिन
<b>शक संवत् 1945</b>				
1.	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी	पौष 11	सोमवार
2	लोहरी	13 जनवरी	पौष 23	शनिवार
3	मकर संक्रान्ति	14 जनवरी	पौष 24	रविवार
4	माघ बिहू/पोंगल	15 जनवरी	पौष 25	सोमवार
5	गुरु गोबिन्द सिंह जन्मदिवस	17 जनवरी	पौष 27	बुधवार
6	हज़रत अली का जन्मदिवस	25 जनवरी	माघ 05	गुरुवार
7	श्री पंचमी/बसंत पंचमी	14 फरवरी	माघ 25	बुधवार
8	शिवाजी जयन्ती	19 फरवरी	माघ 30	सोमवार
9	गुरु रविदास का जन्मदिवस	24 फरवरी	फाल्गुन 05	शनिवार
10.	स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्मदिवस	06 मार्च	फाल्गुन 16	बुधवार
11	महा शिवरात्रि	08 मार्च	फाल्गुन 18	शुक्रवार
<b>शक संवत् 1946</b>				
12.	होलिका दहन	24 मार्च	चैत्र 04	रविवार
13.	दोलयात्रा	25 मार्च	चैत्र 05	सोमवार
14.	ईस्टर रविवार	31 मार्च	चैत्र 11	रविवार
15.	जमात-उल-विदा	05 अप्रैल	चैत्र 16	शुक्रवार
16.	चैत्र शुक्लादि/गुडी पडवा/उगाड़ी/चेती चाँद	09 अप्रैल	चैत्र 20	मंगलवार
17	वैशाखी/विशु	13 अप्रैल	चैत्र 24	शनिवार
18	मसादि (तमिल नव वर्ष का दिन)/वैशाखादि (बंगालों)/बिहाग बिहू (असम)	14 अप्रैल	चैत्र 25	रविवार
19	गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जन्मदिवस	08 मई	वैशाख 18	बुधवार
20.	रथ यात्रा	07 जुलाई	आषाढ़ 16	रविवार
21.	पारसी नववर्ष दिन/नौरोज़	15 अगस्त	श्रावण 24	गुरुवार
22.	रक्षा बंधन	19 अगस्त	श्रावण 28	सोमवार
23.	गणेश चतुर्थी/विनायक चतुर्थी	07 सितम्बर	भाद्र 16	शनिवार
24.	ओणम एंव थिरु ओणम दिवस	15 सितम्बर	भाद्र 24	रविवार
25.	दशहरा (सप्तमी)	10 अक्टूबर	अश्विन 18	गुरुवार
26.	दशहरा (महा अष्टमी)/दशहरा (महा नवमी)	11 अक्टूबर	अश्विन 19	शुक्रवार
27.	करक चतुर्थी (करवा चौथ)	20 अक्टूबर	अश्विन 28	रविवार
28.	नरक चतुर्दशी	31 अक्टूबर	कार्तिक 09	गुरुवार

29.	गोवर्धन पूजा	02 नवम्बर	कार्तिक 11	शनिवार
30.	भाई दूज	03 नवम्बर	कार्तिक 12	रविवार
31.	प्रतिहार षष्ठी अथवा सूर्य षष्ठी (छठ पूजा)	07 नवम्बर	कार्तिक 16	गुरुवार
32.	गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस	24 नवम्बर	अग्रहायण 03	रविवार
33.	क्रिसमस की पूर्व संध्या	24 दिसम्बर	पौष 03	मंगलवार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
प्रदीप तायल, उप सचिव

## GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Co-Ordination Branch)

### NOTIFICATION

Delhi, the 19th October, 2023

**No. F. 53/627/GAD/CN/2023/2023-2258.**—The Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare that the days specified in the following schedule be observed as holidays in all Government offices under Government of National Capital Territory of Delhi during the year 2024 (Saka Era 1945-46):-

S.No.	Holiday	Date	Saka Date	Day
<b>1945 SAKA ERA</b>				
1.	Republic Day	January 26	Magha 06	Friday
<b>1946 SAKA ERA</b>				
2.	Holi	March 25	Chaitra 05	Monday
3.	Good Friday	March 29	Chaitra 09	Friday
4.	Id-ul Fitr	April 11	Chaitra 22	Thursday
5.	Ram Navami	April 17	Chaitra 28	Wednesday
6.	Mahavir Jayanti	April 21	Vaisakha 01	Sunday
7.	Buddha Purnima	May 23	Jyaishtha 02	Thursday
8.	Id-ul-Zuha (Bakrid)	June 17	Jyaishtha 27	Monday
9.	Muharram	July 17	Ashadha 26	Wednesday
10.	Independence Day	August 15	Sravana 24	Thursday
11.	Janmashtami (Vaishnva)	August 26	Bhadra 04	Monday
12.	Milad-un-Nabi or Id-e Milad (Birthday of Prophet Mohammad)	September 16	Bhadra 25	Monday
13.	Mahatma Gandhi's Birthday	October 02	Asvina 10	Wednesday
14.	Dussehra	October 12	Asvina 20	Saturday
15.	Maharishi Valmiki's Birthday	October 17	Asvina 25	Thursday
16.	Diwali (Deepavali)	October 31	Kartika 09	Thursday
17.	Guru Nanak's Birthday	November 15	Kartika 24	Friday
18.	Christmas Day	December 25	Pausha 04	Wednesday

In addition to the holidays specified in above schedule an employee is entitled to avail himself/herself any of two holidays out of the following restricted holidays during the year 2024 (Saka era 1945-46) as mentioned below :

S.No.	Holiday	Date	Saka Date	Day
<b>1945 SAKA ERA</b>				
1.	New Year's Day	January 01	Pausha 11	Monday
2.	Lohri	January 13	Pausha 23	Saturday

3	Makar Sankranti	January	14	Pausha	24	Sunday
4.	Magha Bihu/ Pongal	January	15	Pausha	25	Monday
5.	Guru Gobind Singh's Birthday	January	17	Pausha	27	Wednesday
6.	Hazarat Ali's Birthday	January	25	Magha	05	Thursday
7.	Sri Panchami/Basant Panchami	February	14	Magha	25	Wednesday
8.	Shiva ji Jayanti	February	19	Magha	30	Monday
9.	Guru Ravi Das's Birthday	February	24	Phalguna	05	Saturday
10.	Birthday of Swami Dayananda Saraswati	March	06	Phalguna	16	Wednesday
11.	Maha Shivratri	March	08	Phalguna	18	Friday
<b>SAKA ERA 1946</b>						
12.	Holika Dahan	March	24	Chaitra	04	Sunday
13.	Dolyatra	March	25	Chaitra	05	Monday
14.	Easter Sunday	March	31	Chaitra	11	Sunday
15.	Jamat-Ul-Vida	April	05	Chaitra	16	Friday
16.	Chaitra Sukladi/ Gudi Padava / Ugadi/ Cheti Chand	April	09	Chaitra	20	Tuesday
17	Vaisakhi / Vishu	April	13	Chaitra	24	Saturday
18.	Meshadi (Tamil New Year's Day)/ Vaisakhadi (Bengal)/Bahag Bihu (Assam)	April	14	Chaitra	25	Sunday
19.	Birthday of Guru Rabindranath Tagore	May	08	Vaisakha	18	Wednesday
20.	Rath Yatra	July	07	Ashadha	16	Sunday
21.	Parsi New Year's day/ Nauraj	August	15	Sravana	24	Thursday
22.	Raksha Bandhan	August	19	Sravana	28	Monday
23.	Ganesh Chaturthi/Vinayaka Chaturthi	September	07	Bhadra	16	Saturday
24.	Onam or Thiru Onam Day	September	15	Bhadra	24	Sunday
25	Dussehra (Saptami)	October	10	Asvina	18	Thursday
26.	Dussehra (Mahashtami)/ Dussehra (Mahanavmi)	October	11	Asvina	19	Friday
27.	Karaka Chaturthi (Karva Chouth)	October	20	Asvina	28	Sunday
28.	Naraka Chaturdasi	October	31	Kartika	09	Thursday
29.	Govardhan Puja	November	02	Kartika	11	Saturday
30.	Bhai Duj	November	03	Kartika	12	Sunday
31.	Pratihari Shashthi or Surya Shashthi (Chhat Puja)	November	07	Kartika	16	Thursday
32.	Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day	November	24	Agrahayana	03	Sunday
33.	Christmas Eve	December	24	Pausha	03	Tuesday

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,  
PRADEEP TAYAL, Dy. Secy.